

15.07.2020

Objective QuestionsUnit - 2. निवास स्थान तथा कर-दायित्व
(Residence and tax Liability)(1.) असाधारण निवासी कौन हो सकता है :

Who may be not ordinary resident from the following :

- (a.) Partnership firm (ब) कम्पनी (c.) Hindu undivided family
(सामंजस फर्म) Company हिन्दू अविभाजित परिवार

- (d.) Association of persons
व्यक्तियों के संघ

Ans → (c.) हिन्दू अविभाजित परिवार

(2.) एक सरकारी कर्मचारी को, जो भारत का नागरिक है, विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन :

Salary payable by the Government of India to an Indian citizen for services outside India :

- (a.) Is taxable in India (ब.) Is not taxable in India
भारत में कर-योग्य है ~~निवासी तथा गैर-निवासी भारतीय~~
- (c.) Is includible in the total income for rate purpose only.
कर की दर निर्धारित करने की कुल आय में शामिल किया जाता है

Ans → (a.) भारत में कर-योग्य है

(3.) निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा जा सकता है :

What are the classes of an assessee on the basis of their residence :

- (a.) Indian and foreigners (b.) Resident Indian and Non-resident Indians
भारतीय व विदेशी निवासी तथा गैर-निवासी भारतीय
- (c.) Resident, Not ordinarily resident and Non-resident
निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी
- (d.) Persons, firms and companies (व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनियाँ)

Ans → (a.) निवासी, असाधारण निवासी तथा अनिवासी

(4.) भारत में उपार्जित आय
Income accrued in India is assessable for:

- (a) All assessee (b) Resident in India
सभी करदाताओं निवासी
- (c) Not ordinarily resident in India (d) Non-resident in India
असाधारण निवासी अनिवासी

सि → (a) सभी करदाताओं

(5.) निवासस्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है :
On the basis of residence, the assesses are divided into how many categories:

- (a) Two (दो) (b) Three (तीन) (c) Four (चार) (d) Five (पांच)

सि → (b) तीन

(6.) पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है :

Agricultural income in Pakistan is assessable for:

- (a) Resident (b) Not-ordinarily resident
निवासी असाधारण निवासी

- (c) Non-resident (d) Not taxable
अनिवासी कर-योग्य नहीं होगा

सि → (a) निवासी

(7.) एक भारतीय नागरिक जो एक वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम-से-कम ठहरना होगा :

A citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India to become resident at least:

- (a) 182 days (b) 90 days (c) 60 days (d) 180 days

सि → (a) 182 Days.

(8) करपाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष:

Every year the residential status of an assessee:

(a) may change

बदल सकती है

(b) will certainly change

निश्चित बदलेगी

(c) will not change

नाहीं बदलेगी है

(d) None of these

इनमें से कोई नहीं

Ans → (a) बदल सकती है

(9) Fill in the blank:

(i) निवास-स्थान के आधार पर करदाताओं को श्रेणियों में बाँटा जाता है

(The assessee are classified in --- categories on the basis of residential status.)

Ans → तीन

(ii) आत्र भारत से बाहर कमाई गई तथा वहीं प्राप्त हुई। इस आय पर कर देना होगा

Income accrued outside India and also received there. It is taxable in case of ---

Ans → भारत में निवासी

(iii) एक कंपनी फ्रांस में पंजीकृत है। इसके कार्रवायों का आंशिक नियंत्रण एवं प्रबंध भारत में स्थित है। कंपनी भारत में होगी।

A company is registered in France. The control and management of its affairs is partly situated in India. The company is --- in India.

Ans → अनिवासी

— X —